

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1649.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, जावरा, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, जावरा, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	अनिल दसेड़ा	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	घनश्याम सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सैराज बी चांद	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	तेजूब हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	मेहमूद (पेपा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	नसीम बी पति मुन्नाशाह	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	जेनब अब्बास बोहरा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मो. मुस्तकीम मन्सुरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रमेशचन्द्र ररोतिया	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगरपालिका परिषद्, जावरा, जिला रतलाम.	पार्षद	9	नौ	ओ. पी. धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मोड़ीराम धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अजयसिंह भाटी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	प्रमीला शिखरचन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुधीर कोचट्टा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	विद्या सीताराम धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	चंचल गादिया	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	अब्दुल हक़िम एडवोकेट	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	नसीम बी	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	विद्या पंकज कांठेड़	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	दुर्गा लोकेश विजवा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	दिनेश सैनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	रशीदा एहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	भूरीबी मुबारिक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	शाहीन खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	नुर हुसैन-नासिर हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	इब्राहिम मंसूरी	निर्दलीय
27		पार्षद	26	छब्बीस	पिंकी सोहनलाल	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	कोशलयादेवी-मोतीलाल	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	राजु खराड़ी	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	सुमन दीनदयाल	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	पवन सोनी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1650.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नामली, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगर परिषद्, नामली, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	“नेरन्द सोनावी”	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीनाथ योगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगरपालिका परिषद्, नामली, जिला रतलाम.	पार्षद	2	दो	“अजय जोगचंद”	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	गेहलोत सुखदेव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	कैलाशचन्द्र हेमावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	“गुडडी देवचंद कुमावत (माकड़ी)”	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	लता दिनेश जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती सुगनबाई लक्ष्कार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रेखा मुकेश जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	शांती बाई धनराज	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	निलेश “नाना” भंसाली	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	पवित्रा संजय चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती रेखा राजेश परमार	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पंकज चांदमल जैन	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सागरबाई प्रकाशचन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रकाश कुमावत	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1651.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पिपलौदा, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पिपलौदा, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	“श्याम बिहारी पटेल”	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	ईश्वरलाल पिता गोविन्दराम जटिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	गीता पति नागुलाल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	पप्पी बाई भरत धनगर	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	“प्रफुल जैन”	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	“उमेश माँगीलाल प्रजापत”	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	रईस मोहम्मद मंसुरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	नगरपालिका परिषद्, पिपलौदा, जिला रतलाम.	पार्षद	7	सात	“रामगोपाली नारायण धनगर”	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नरसिंह धनगर	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	सुरेश पिता रामप्रसाद गेहलोत	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	रंजीता बहादुर जाट	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती संगीता पति अशोक गेहलोत	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	तुलसा बाई शंकरलाल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	“प्रेमलता चौहान”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	माया अशोक नागर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रहलाद ईश्वर लाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1652.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, आलोट, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, आलोट, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	विष्णु कुंवर सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	भुली बाई - शोभाराम पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कोमल देवी गेहलोत पति राजेंद्र कुमार गेहलोत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	तनवीर काजी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अनिल भरावा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	मेघा मोहक मेहता	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अशोक रतनलाल खिंची	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रवण सिंह सोलंकी एडवोकेट	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	रजिया बी पति मुमताज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	एडवोकेट युसुफ शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	बालकृष्ण कुवाड़ीयाँ	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रेमचन्द गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	शैलेश ज्ञानचन्द आँचलीया	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मधू - नागेश खारोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	नगर परिषद्, आलोट, जिला रतलाम.	पार्षद	14	चौदह	मन्जूबाई - मुकेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राधाबाई प्रभुलाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1653.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बडावदा, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बडावदा, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	सुनीता प्रदीप (नाना) मेहता	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	लालसिंह सिसोदीया	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सरजूबाई W/O श्री सोहन मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शारदाबाई दुल्लाजी गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती अनिता उमेश लढढा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	आरीफा बी रशीद खॉन पठान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	रमेश छप्पा परमार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	बाबुलाल भेरुलाल चोकीया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	पुष्पा कैलाश राठोर (टेलर)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	मन्जु रमेश गामी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	संजय कुमार भेरुलाल जी चावड़ा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अनिल सुरेशचन्द्र अवस्थी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	गणपतसिंह मालीवाड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	तारादेवी रामकरण मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	राजेन्द्र मांगीलाल कुमावत	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मागीबाई दिनेश बारोट	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1654.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, ताल, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, ताल, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	श्वेता संजय (बंटी) पितलीया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मधुबाला पवन मोदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	बंकट राठौर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	गुलनाज जहाँ - जब्बार खॉ	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	हंसा बाई पति दिलीप जी राठौड	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती प्रतिमा राजू माहेश्वरी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	प्रभुलाल राठोर	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मीना नरेन्द्र मेहता	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	मंजु दिनेश	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अभिषेक इलु सकलेचा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अशोक माली	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नवीन मेहता	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	मसीद खॉ	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	गोरधनलाल पोरवाल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	शमीम बी गुड्डू खॉन	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रफिक खॉन उर्फ पप्पु काजी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1655.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, हटा, जिला दमोह के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर पालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, हटा, जिला दमोह.	अध्यक्ष	-	-	अरुणाबाई मोहनलाल तंतुवाय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	मुन्नालाल अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगरपालिका परिषद्, हटा, जिला दमोह.	पार्षद	2	दो	रजनी / हरेन्द्र दुबे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	ब्रजेश दुबे (मुन्ना)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अरविंद पन्नालाल साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	अनिल ताम्रकार (लल्ला)	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती सुधा जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मनोज कुमार सोनी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	अफजल पठान पिता अब्दुल जब्बार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	ब्रिजेन्द्र सिंह / कल्याण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	तसलीम बानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	द्रोपती बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	शबाना बेगम पप्पू आजाद टेंट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	प्रेमरानी पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	कोशल्या / सुम्मेर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गीता पप्पू अठ्या	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1656.:—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, दमोह, जिला दमोह के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, दमोह, जिला दमोह.	अध्यक्ष	-	-	मालती असाठी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	लीला रमेश राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सरोज अजय (चुन्नु) यादव	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शिल्पा-विजय जैन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	आशीष सुशीला पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	विक्रम ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	राघवेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	किशोरी देवी चंदेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9	नगरपालिका परिषद्, दमोह,	पार्षद	8	आठ	अमर विनीता सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	जिला दमोह.					
10	पार्षद	9	नौ	राशू चौहान		इंडियन नेशनल कांग्रेस
11	पार्षद	10	दस	कांति बाई/गोविंद सिंह		भारतीय जनता पार्टी
12	पार्षद	11	ग्यारह	नवीता अमित जैन "त्यागी"		निर्दलीय
13	पार्षद	12	बारह	प्रेमादेवी/भरत गुप्ता		भारतीय जनता पार्टी
14	पार्षद	13	तेरह	कविता/संदीप यादव		भारतीय जनता पार्टी
15	पार्षद	14	चौदह	पार्वतीरानी/डालचंद		भारतीय जनता पार्टी
16	पार्षद	15	पन्द्रह	प्रशांत तिवारी		भारतीय जनता पार्टी
17	पार्षद	16	सोलह	"नेहा पप्पू कासौटिया"		इंडियन नेशनल कांग्रेस
18	पार्षद	17	सत्रह	उषा-विनोद अग्रवाल		निर्दलीय
19	पार्षद	18	अट्ठारह	अनीता डॉ. केदारनाथ शर्मा		भारतीय जनता पार्टी
20	पार्षद	19	उन्नीस	"कृष्ण कुमार राज"		भारतीय जनता पार्टी
21	पार्षद	20	बीस	श्याम अहिरवाल		भारतीय जनता पार्टी
22	पार्षद	21	इक्कीस	राजाराम सोनी		भारतीय जनता पार्टी
23	पार्षद	22	बाईस	रवि सिंघई		भारतीय जनता पार्टी
24	पार्षद	23	तेईस	मंजु वीरेन्द्र राय		इंडियन नेशनल कांग्रेस
25	पार्षद	24	चौबीस	बंदना		भारतीय जनता पार्टी
26	पार्षद	25	पच्चीस	श्रेयांस लहरी		भारतीय जनता पार्टी
27	पार्षद	26	छब्बीस	संगीता राजा रौतेला		इंडियन नेशनल कांग्रेस
28	पार्षद	27	सत्ताईस	अशोकी सिंह/मुन्ना ठाकुर		भारतीय जनता पार्टी
29	पार्षद	28	अट्ठाईस	रूपेश रजक		भारतीय जनता पार्टी
30	पार्षद	29	उन्तीस	नरेन्द्र सिंह चन्देल (नंदू ठाकुर)		भारतीय जनता पार्टी
31	पार्षद	30	तीस	शादाब खान		निर्दलीय
32	पार्षद	31	इकतीस	मुहम्मद कफील कुरैशी		निर्दलीय
33	पार्षद	32	बत्तीस	बबलू इकबाल खान		भारतीय जनता पार्टी
34	पार्षद	33	तैंतीस	लखन लाल		भारतीय जनता पार्टी
35	पार्षद	34	चौंतीस	नर्वदा प्रसाद सूर्यवंशी		भारतीय जनता पार्टी
36	पार्षद	35	पैंतीस	दीपा/हेमराज भैया		इंडियन नेशनल कांग्रेस
37	पार्षद	36	छत्तीस	महिमा/महेंद्र मेहरा		भारतीय जनता पार्टी
38	पार्षद	37	सैंतीस	सरताज बेगम मुरसलीन कुरैशी		इंडियन नेशनल कांग्रेस
39	पार्षद	38	अड़तीस	आरती मुकेश रोहितास		निर्दलीय
40	पार्षद	39	उन्चालीस	शरद कुमारी यशपाल सिंह ठाकुर		इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.



अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1657. :—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सुनीता/पप्पू सिंघई	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती दशोदा/कृष्णा केवट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	लक्ष्मीरानी/श्याम सुंदर जैन	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सविता/गोविन्द	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रामकुमार साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सुखरानी पति तिलक अहिरवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति लक्ष्मी साहू पति बाला प्रसाद साहू (ठेकेदार)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मायारानी/लक्ष्मी प्रसाद नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	उषा/अमतलाल	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	दिलीप कुमार खटीक (बड्डा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	महेश प्रसाद केवट पिता वंशीलाल केवट	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुन्नालाल विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	अजित जैन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मस्तराम घोषी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	संगीता/जागेश्वर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सीताराम (सिद्धू)	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1658. :—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पथरिया, जिला दमोह के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पथरिया, जिला दमोह.	अध्यक्ष	-	-	“कृष्णा /लक्ष्मण सिंह”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	केलाश/केवलचंद जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	पूनाबाई पति रमेश (रम्मू) राठौर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	“ममता पति निरंजन कुर्मी”	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	हल्ले साहू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शीलरानी / राजू अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	विनीता प्रीतम पटैल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	चिन्तामन अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	“राधारानी / राघवेन्द्र सिंह”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	जयति पति डोमन पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	पूजा / वीरेन्द्र दुबे	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	संजय / भगवानदास सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	“अनिल तिवारी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	तस्लीम पति पीर अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	संतोषरानी/श्रीधर अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पूरनलाल पिता परसादी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1659.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, हिंडोरिया, जिला दमोह के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, हिंडोरिया, जिला दमोह	अध्यक्ष	-	-	शकुन्तला सिंह (अम्मा) राजा भैया	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	परमलाल आदिवासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	कविता गोविन्द अहिरवार	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति राजकुमारी सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	जयंती/रामसींग	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	लक्ष्मीबाई लोधी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	शहीद गुडडू	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	नगर परिषद्, हिंडोरिया, जिला दमोह	पार्षद	7	सात	राहत जहाँ सायरा तैयुब	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	डॉ. कय्यूम मिर्जा	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अर्चना / राजेश पटैल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	मीनाबाई पति राजाराम अहिरवार	बहुजन समाज पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	पार्वती पति भानूप्रताप अहिरवार	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	दशोदा मुकेश बाबा	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	प्रेमनारायण पिता किशोरी साहू	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	जगदीश चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	हीरा लाल	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1660.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, चंदेरी, जिला अशोकनगर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर पालिका परिषद्, चंदेरी, जिला अशोकनगर	अध्यक्ष	-	-	रूषा शरद कुमार कोली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	रीना रैकवार	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	पार्वती कोली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती आशा मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	राघवेन्द्र सिंह सेंगर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मोनू परिहार (खंगार)	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रूविया वानो	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	आरिफ वेग	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	जब्बार खाँ उर्फ गुड्डु	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती जनक बाई यादव	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अखिलेश कुंवर यादव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	विश्वेन्द्र तिवारी (विक्की)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति गुडडी किशनलाल कोली बडेरा वाले	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	सीताराम अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	फारूख मौहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	नगरपालिका परिषद्, चंदेरी, जिला अशोकनगर	पार्षद	15	पन्द्रह	राजीव कुमार (बल्लू)	निर्दलीय
17		पार्षद	16	सोलह	विमला बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	विलकीस वानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठारह	मुस्तकीम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	प्रेमनारायण (हल्कई)	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	उमादेवी कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	मुन्नी बाई	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1661.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर.	अध्यक्ष	-	सुशीला साहू	भारतीय जनता पार्टी	
2		पार्षद	1	एक	सत्येन्द्र सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	हल्कीबाई नाहर सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	डॉ. हरवीर सिंह रघुवंशी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शारदा बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	पूजा कुलदीप दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	वर्षा ज्ञान सिंह राजपूत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	कृष्णा देवी संजीव कुमार	बहुजन समाज पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	राजकुमारी मुकेश खरे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	बृजकिशोर नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राशिद खां (चिन्ना)	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	रुखसाना पटेल	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	अरुण कुमार बालू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	रानी सलिल त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	पवन कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मनोज कुमार शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	ऋषि कांत त्रिपाठी	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	राजकुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	अनिता जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर	पार्षद	19	उन्नीस	मोनिका तरुण भट्ट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	रोशन राज सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	पान कुंअर बाई लोधी	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	दीपक उर्फ सोनू सुमन	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1662.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मुगावली, जिला अशोकनगर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मुगावली, जिला अशोकनगर.	अध्यक्ष	-	-	राधा गणेश सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	कमला बाई तेजसिंह गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सुदामा बाई नारायण अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	दीपक टुंडेले (बंटी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	चंद्रेश कुमार S/O कोमलप्रसाद साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती नीतू जैन (मोदी)	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	भगवान सिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	दशरथ सिंह (बल्लू भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती रूकमणी मनोज शर्मा (कल्लन)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती वन्दना रूपेश जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अयूब भाई	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	जलील खां खलील खां जमीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	नाजिया बानो शरीफ खां राईन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	साबरा वी फारूख खां	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	शबीना बानो साजिद डायर	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पयाम अहमद कुरैशी डिस्क वाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1663.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, शाहौरा, जिला अशोकनगर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
1	नगर परिषद्, शाहौरा, जिला अशोकनगर.	अध्यक्ष	-	-	मुन्नीबाई पत्नि श्री अनरतसिंह ठेकेदार	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	सुंदरबाई पत्नि फूलसिंह अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	राजाराम चन्दन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	सावित्री अहिरवार पति मोहन सिंह अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	राहुल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	भास्कर सिंह रघुवंशी (भासू)	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	राकेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती गायत्री कुन्जलाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	जगराम आदिवासी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती गुंजनबाई पत्नी हरिओम कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	कल्पना चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	हर प्रसाद खटीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	रसीदा पत्नि शमीम खां पठान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	जयाउद्दीन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अमीना नूर मोहम्मद	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रीति शैलेन्द्र रघुवंशी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.